



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1941 (श0)
(सं0 पटना 534) पटना, मंगलवार, 9 अप्रील 2019

सं0 14/विविध-04/2019-583(14)
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

20 मार्च 2019

विषय:- लोक सभा/विधान सभा आम/उप निर्वाचन के दौरान निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से घायल या बीमार होने की अवस्था में उनके चिकित्सा व्यय के वहन के संबंध में।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में मुख्य सचिव, बिहार एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ दिनांक 18.01.2019 का बैठक में संलग्न विषयांकित मामलों पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

1. वित्त विभाग के संकल्प सं0-2796, दिनांक 01.04.2009, 451 दिनांक 09.04.2014 एवं 608, दिनांक 07.05.2014 के द्वारा लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य के प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से मृत्यु या अपंगता की स्थिति में पूर्व से ही देय अनुग्रह अनुदान प्रभावी है।

2. निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFS) के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से घायल या बीमार होने की अवस्था में उनके चिकित्सा व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

3. लोक सभा/विधान सभा आम/उप निर्वाचन से संबंधित कार्य पर प्रतिनियुक्त सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFS) उपर्युक्त प्रावधान से आच्छादित होंगे। प्रस्तुत मामलों में केन्द्रीय पुलिस सशस्त्र बल (CAPFS) का तात्पर्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अलावा बाह्य राज्यों से बिहार राज्य में निर्वाचन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त अन्य सशस्त्र बल भी है।

4. निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFS) के घायल या बीमार होने की अवस्था में संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग का निर्धारित दर अर्थात् CGHS दर पर दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

5. चिकित्सा व्यय के वहन हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFS) के प्रभारी अथवा ईलाजरत कर्मी द्वारा यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति हेतु अपने कार्यालय में दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. उपरोक्त चिकित्सा व्यय की स्वीकृति संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा दी जायेगी। इसके आलोक में संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी द्वारा ईलाजरत अस्पताल को भुगतान किया जायगा। राज्य से बाहर अस्पताल अवस्थित होने की स्थिति में इसका भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना की अनुशंसा पर किया जायेगा।

7. इस मद में होने वाला व्यय लोक सभा/विधान सभा आम/उप निर्वाचन में "मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-0005-निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय-0005.13.01 कार्यालय व्यय इकाई" या "मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-0005-निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय-0005.13.01 कार्यालय व्यय इकाई" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 534-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>